



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365]
No. 365]नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1979/अग्रहायण 2, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1979/AGRAHAYANA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकीहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अन्तर्गत आने वाले तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 23क की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाले रुक्ष चश्मा कांच ब्लॉक को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

[सं. 222/फा.सं. 346/16/79-टी.आर.यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd November, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is

882 GI/79

necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough ophthalmic glass blanks, falling within Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and falling under sub-item (4) of Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when imported into India, from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975.

[No. 222/F. No. 346/16/79-TRU]

सा. का. नि. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकीहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 149-सीमा-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 में नमिलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “विस्कासी फिलामेंट सूत” शब्दों के स्थान पर “600 डेनियर से कम का विस्कासी फिलामेंट तन्तु” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 223/फा. सं. एस. 13/1/77-टी.आर.यू.]

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149-Customs, dated the 15th July, 1977, namely :—

In the said notification for the words “viscose filament yarn” the words “viscose filament yarn below 600 deniers” shall be substituted.

[No. 223/F. No. S. 13/1/77-TRU]

(1349)

सा. का. नि. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 38-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
“4	600 डेनियर और उससे अधिक का विस्कोसी फिलामेंट तन्तु	15 प्रतिशत मूल्यानुसार
5	उपयुक्त क्रम सं. 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न सभी वस्तुएं	शत प्रतिशत मूल्यानुसार”

[सं. 224/फा. सं. एस. 13/1/77-टी.आर.यू.]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

G.S.R. 637(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38-Customs dated 1st March, 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification, for Serial Number 4 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
“4.	Viscose filament yarn of 600 deniers and above.	15 per cent ad valorem
5.	All articles other than those specified in Sl. Nos 1, 2, 3, and 4 above.	100 per cent ad valorem”

[No. 224/F. No. S. 13/1/77-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.